


# ब्रह्मिर्मंडलयंत्रपूजा ।

( भाषाटीका सहित )

संपादकः---

पं० मनोहरलालशास्त्री ।



वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



कम भगता


पान न.

गुण





(जाप्यमंत्र) **ॐ ह्रीं ह्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं ह्रीं** अस्मि आरुसा  
 साय्यावकीर्ण शानचारित्रोभ्यो ह्रीं नमः ।



श्री त्रसविंशत्यंत्रः

प्रकाशक - पं. मनोहरलाल शास्त्री  
 चंद्रावती मुद्रण मं ५



श्री परमात्मैवे नमः ।

श्रीमद्गुणनन्दिमुनीन्द्र चिन्तित

# ऋषिमंडलयंत्रपूजा ।

( भाषा टीका सहित )

जिसको

पं० मनोहरलाल शास्त्री ने

सरल हिन्दी भाषा सहित

तयार की ।

और

जैनग्रंथ उद्धारक कार्यालयद्वारा

प्रकाशित की गई ।

प्रथमवार  
१५००

*All Rights Reserved.*

{ मूल्य १- )  
{ आना.

Printed by G. N. Kulkarni at the Karnatak Printing  
Press, No. 434, Thakurdwar, Bombay,  
and

Published by Pandit Manoharlal Shastri, Vyavasthapak  
" Jain Grantha Udharak Karyalaya, Chandawadi,  
Bombay No. 4.



आज मैं श्रीजिनेन्द्रदेवकी कृपासे प्रिय पाठकोके सामने अपूर्व मंत्र-की पुस्तक भापाटीका सहित उपस्थित करता हू। जोकि द्वादशांगवाणी के बारवे अंगके चौदहपूर्वमेंसे विद्यानुवाद नामक दशवे पूर्वका अंग-भूत है। जिसको श्रीमान् गुणनंदा आचार्यने यत्रपूजासहित ऋषि-मंडल नामसे रचा है। इससे बड़ा विद्यानुशासन नामका मंत्रशास्त्र विस्ताररूपसे रचा गया है जिसमें चौबीस अधिकार और पांच हजार मंत्र हैं। उनके नाम चार श्लोकोमे कहे गये हैं। वो निम्नलिखित हैं—

अथ मंत्रिलक्षणविधिर्मंत्राणां लक्ष्मं सर्वपरिभाषा ।  
सामान्यमंत्रसौधनमुक्तिः सामान्यमंत्राणाम् ॥ १ ॥  
गर्भोत्पत्तिविधानं बालचिकित्सा ग्रहोर्पसंग्रहणं ।  
विषहरेणं फणितंत्रं मंडलर्योच्यपनयो रुजां शैमनं ॥२॥  
कृतैरैगयो मूत्रप्रतिविधानमुच्चारणं च विद्वेषः ।  
स्तर्भैः शान्तिः पुष्टिं वैश्याकृष्याकर्षणं नैम ॥ ३ ॥  
अधिकाराणां शास्त्रेस्मिन्निमे चतुर्विंशतिः क्रमात्कथिताः  
पंचसहस्राण्यस्य मंत्राणां भवति संख्यानं ॥ ४ ॥

उन चौबीस अधिकारोका सार इस छोटेसे ग्रंथमें रखकर घडेमें सागर भरने की लौकिक कहावतको सिद्ध कर दिखाया है। इस मंत्र शास्त्रकी

प्रशंसा लिखनी व्यर्थ है पाठकगण आप देखकर अनुभव करेंगे । इस गंभीरविषयका भाषानुवाद करनेमें जो परिश्रम हुआ है उसको पाठकगण ही निश्चय कर सकते हैं । इस पुस्तकमें संक्षेपसे यंत्र मंत्र बनानेकी विधि स्पष्ट रीतिसे दर्शाई गयी है । यद्यपि भक्तामरके मंत्रोंका माहात्म्य भी बहुत प्रसिद्ध है लेकिन साधनेकी विधिमें कठिनाइयां होनेसे योगीके समान स्थिरचित्तवाला ही सफलता प्राप्त कर सकता है । अन्यथा उसका परिश्रम वृथा जाता है । इसमें साधन विधि बहुत सरलतासे दिखलाई गई है । जिससे कि हरएक श्रद्धानी भव्यजीव लाभ उठा सकते हैं । इसके अंतमें यंत्रभी लगाया गया है और इसकी विषयसूची भी लगा दी गई है ताकि देखनेमें सुगमता हो । इसकी दो प्रतिया मुझे हस्त लिखित मिलीं परंतु वे बहुत अशुद्ध थीं इससे एकवार तो अनुवाद करनेका अनुत्साह हुआ परंतु श्वेताम्बर मणि स्वर्गीय श्रीयति मोहनलालजीकी स्मारक लाइब्रेरीसे टिप्पणीसहित स्तोत्रकी प्रति मिलनेसेही मेरा उत्साह उमग उठा । उस प्रतिसे मुझे बहुत सहायता मिली । इसलिये उस-लाइब्रेरीके प्रबंधकर्ताओंको कोटिशः धन्यवाद देता हूं तथा यंत्र बना हुआ श्रीपार्श्वसागर ब्रह्मचारीनें भेजकर जो अतिशय कृपा दिखलाई है उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं । इसके अतके पूजा प्रकरणमें यद्यपि अशुद्धियां कुछ रह गई हैं । उसका कारण शुद्ध प्रतिकान मिलना ही है । तौ भी शक्तिके माफिक जहातक हुआ है शुद्ध कर दिया गया है । यह ग्रंथ दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैनसंप्रदायोंमें परम माननीय है । इससे इसका महत्व प्रगटही है । अब मेरी अंतमें यह प्रार्थना है कि जो प्रमाद वश दृष्टि दोषसे तथा ज्ञानकी न्यूनतासे अर्धांश वगैरःमें अशुद्धियां रह गईं हो तो पाठक-गण मेरे ऊपर क्षमा करके शुद्ध करते हुए पाठ करें । मेरी समझमें

मंत्र यत्र विधिमे अशुद्धियां बिलकुल नहीं रहीं है । इससे अच्छी तरह पाठकोंको सफलता हो सक्ती है । यह छोटाग्रंथ मंत्रशास्त्ररूपी समुद्रमें प्रवेश होनेके लिये नौकाके समान अवश्य हो जाइंगा । ऐसी मै आशा करता हूं और अपने स्थापित "जैनग्रंथ उद्धारक कार्यालय" रूपी वृक्षको सींचनेके वास्ते इस मंत्रविषयक ग्रंथरूपी जलघटको समर्पण करता हूं । इस ग्रंथके देखनेसे हमारे प्रिय पाठकोंको यदि संतोष हुआ । और आर्थिक सहायतासे प्रेरणाकी तो पूर्व कहे हुए विद्यानुशासन मंत्रशास्त्रको भी भाषानुवाद सहित संपादन करनेका साहस कर सकूंगा । और अपना परिश्रम सफल समझूंगा । इस तरह प्रार्थना करता हुआ इस प्रस्तावनाको समाप्त करता हूं । अलं विद्वत्सु ।

खतरआली गहूरी होंदाकी  
वाडी-बवई नं. ४  
कार्तिक कृष्ण १४ स. १९७२

जेनसमाजका दास,  
मनोहरलाल,  
पाढम (मैनपुरी) निवासी ।



## श्री ऋषिमंडल यंत्रपूजा की विषयसूची ।

	विषय					पृ०
१	मंगलाचरण...	...	...	...	...	१
२	पूजा करानेवालेका लक्षण	..	...	...	...	॥
३	पूजा चढानेवालेका लक्षण	...	...	...	...	॥
४	पूजाकी विधिके आचार्यका लक्षण...	...	...	...	...	२
५	मढप (स्थान) का लक्षण	...	...	...	...	॥
६	सामग्रीका स्वरूप	...	...	...	...	॥
७	यंत्र बनानेकी विधि	..	...	...	...	३
८	यंत्रकी पूजाका आरंभ...	...	...	...	...	६
९	ऋषिमंडल स्तोत्रका पाठ...	...	...	...	...	॥
१०	मंत्र बनानेकी विधि और उसके अक्षरोंकी संख्या	...	...	...	...	८
११	अहंतका वाचक ह्रीं बीजाक्षरका स्वरूप और उमके पांचों भागके पांच रंगका कथन	...	...	...	...	११
१२	उन पांच भागोंमें अपने रंगके अनुसार तीर्थकरोंका स्थापन ।	...	...	...	...	१२
१३	सर्प आदिकी रक्षाके जुदे २ श्लोकमंत्र	...	...	...	...	१३
१४	मंत्रयंत्रादिका लौकिक फल	...	...	...	...	१६
१५	मंत्र साधनकी विधि और जाप तथा दिनोंकी संख्या	...	...	...	...	१८
१६	मंत्रादिका पारमार्थिक फल	...	...	...	...	१९
१७	यंत्रके कोठोंमें रहनेवाले तीर्थकर आदिक सब अधिष्ठाताओंकी पूजाका विधान	...	...	...	...	२०
१८	ग्रंथ प्रशस्तित श्लोक...	...	...	...	...	४२

इति विषयसूची



श्रीमद्गणनन्दिमुनीन्द्रविरचित  
**ऋषिमण्डल यंत्रपूजा ।**  
( संक्षिप्त भाषाटीका सहित । )

मंगलाचरण—प्रणम्य श्रीजिनाधीशं, लब्धेः सामस्त्यसंयुतम् ।

ऋषिमण्डलयंत्रस्य, वक्ष्ये पूजादिमल्पशः ॥ १ ॥

अर्थ—समस्त ऋषियोवाले श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके  
अल्पबुद्धिके अनुसार ऋषिमण्डल—यंत्रकी पूजा आदि विधिको मैं  
कहता हूँ ॥ १ ॥

यजमानलक्षणं ( यजमानका लक्षण ) ।

विनीतो बुद्धिमान् प्रीतो, न्यायोपात्तधनो महान् ।

शीलादिगुणसंपन्नो, यथा सोत्र प्रशस्यते ॥ २ ॥

अर्थ—इस यंत्रपूजाके विषयमे जो, विनयशील, बुद्धिमान्,  
प्रीतिमान्, न्यायसे धन कमानेवाला और ब्रह्मचर्य आदि गुणोसहित  
हो वही यथा अर्थात् पूजा करानेवाला प्रशंसा योग्य कहा जाता है ॥२॥

याजकलक्षणं ( पूजा चढानेवालेका लक्षण ) ।

देशकालादिभावज्ञो, निर्ममः शुद्धिमान् वरः ।

सद्वाण्यादिगुणोपेतो याजकः सोत्र शस्यते ॥ ३ ॥

अर्थ—देश काल द्रव्य भावका जाननेवाला हो, ममता (तृष्णा)  
रहित हो, अंतरंग ब्राह्म शुद्धिवाला श्रेष्ठ और मिष्टवचनादिगुणोसहित

हो वही याजक अर्थात् पूजा चढानेवाला यहां प्रशंसनीय कहा गया है ॥ ३ ॥

**आचार्यलक्षणं ( विधिके वतलानेवाले आचार्यका स्वरूप )  
दर्शनज्ञानचारित्रसंयुतो ममतातिगः ।**

**प्राज्ञः प्रश्नसहश्चैव गुरुः स्यात् क्षांतिनिष्ठितः ॥ ४ ॥**

**अर्थ**—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र सहित हो ' यह मेरा ' ऐसी ममतासे रहित हो श्रेष्ठ विद्वान् हो प्रश्नको सहनेवाला अर्थात् कैसाही प्रश्न किया जावे लेकिन मनमे क्षोभ नहीं हो और क्षमावान हो, वही गुरु अर्थात् आचार्य माना गया है ॥ ४ ॥

**मंडपलक्षणं ( पूजा करनेके स्थानका लक्षण ) ।**

**निर्मलं पृथुलं घंटातारकातोरणान्वितं ।**

**प्रलंबत्पुष्पमालाढ्यं चतुर्धा कुंभसंयुतं ॥ ५ ॥**

**भेरीपटहकंसालतालमर्दलनिःस्वनैः ।**

**आकुलं स्त्रैणगीतार्द्यैर्मंडपं कारयेद्बुधः ॥ ६ ॥ युग्मं ।**

**अर्थ**—पूजाके मंडपकी जगह साफ हो, विस्तारवाली हो, घंटा, छोटी घटिकाये और तोरण ( वंदनवार ) सहित हो, लंबी फूलोंकी मालाओसे शोभायमान और चार कलशोकर सहित हो । भेरी ढोल मजीरा तबला मृदंगके शब्दोंसे तथा स्त्रियोंके गीत मंगलोसे सुंदर ऐसा पूजाका मंडप बुद्धिमानको कराना चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥

**सामग्रीलक्षणं ( पूजाकी सामग्रीका स्वरूप )**

**स्वजात्योत्कर्षणी पूता नेत्रमानसहारिणी ।**

**सामग्री शस्यते सद्भिर्निखिलानंदकारिणी ॥ ७ ॥**

**अर्थ**—सुगंधित, पवित्र, नेत्र मनको हरनेवाली और सबको आनंद देनेवाली ऐसी सामग्री सत्पुरुषोंने बतलाई है ॥ ७ ॥

अथ यंत्रोद्धारः ( अब यंत्रवनानेकी विधि कहते हैं )

कांचनीयेथवा रौप्ये कांसे वा भाजने वरे ।

मध्ये लेख्यःसकारांतो द्विगुणो यांतसेवितः ॥ ८ ॥

तुर्यस्वरमनोहारी त्रिदुराजार्धमस्तकः ।

जिनेशास्तत्प्रत्यालेख्या यथास्थानं तदंतरे ॥९॥ युग्मं ।

अर्थ—यत्र सोने चांदी अथवा कांसे ( ताबे ) का गोल थालीके आकार बनवाना चाहिये । उसके बीचके भागमे सकार अक्षरके अंतका अक्षर यानी 'ह' वर्ण यांत अर्थात् रकार मिला हुआ दुहरा ( आर्नमेटैड ) लिखना चाहिये । उसमे चौथा स्वर ईकारको लगाना और उसके माथेपर आधेचंद्रमाके आकार चिन्हको बिंदु ऊपर रखकर बनाना । जैसे—ह्रीं । उस ह्रीं वर्णके बीचमे चौवीसों तीर्थकर, कहे जानेवाले क्रमसे लिखने चाहिये ॥ ८ ॥ ९ ॥

चंद्रप्रभपुष्पदंतौ मुनिसुव्रतनेमिकौ ।

मुपार्श्वपाश्वौ पद्माभ-वासुपूज्यौ तथा क्रमात् ॥ १० ॥

कलायां तदुपरिष्ठादीकारे मूर्ध्नि च स्फुटं ।

लेख्याः शेषा जिना गर्भे नमोयुक्ताश्च पीतभाः

॥ ११ ॥ युग्मं ।

अर्थ—'चंद्रप्रभपुष्पदंताभ्यां नमः, ऐसा ह्रीं की अर्धचंद्रमाकी कलामें लिखना 'मुनिसुव्रतनेमिभ्या नमः, ऐसा उस कलाके ऊपर बिंदुस्थानमें लिखें । 'मुपार्श्वपाश्वभ्या नमः, कहे हुए वर्णके ईकार स्वरमें लिखें । उस पूर्व कथित वर्ण ( ह्रीं ) के मस्तकमे 'पद्मप्रभवामुपूज्याभ्या नमः, ऐसा लिखें । और वचे हुए तीर्थकरोको अर्थात् 'ऋषभाजित-संभवामिनंद-नमुमति—शीतलश्रेयोविमलानत—धर्मशातिकुंथु—अरमह्निनमिर्वर्धमानेभ्यो नमः, इसतरह उसके बीच भागमे लिखना चाहिये । जैसा कि यंत्रमें

सब दिखाया गया है। ये सब बीच भागके पीतवर्ण सोनेके समान प्रभावाले हैं ॥ १० । ११ ॥

ततश्च बलयः कार्यः तद्गात्रे कोष्टकाष्टकं ।  
तत्रेतिलेरुयं विबुधैश्चारुलक्षणलक्षितैः ॥ १२ ॥

अर्थ—उसके बाद ही वर्णके चारोतरफ आठ कोठोवाला गोला खींचै उन कोठोंमे सुंदर लक्षणोवाले चतुर पुरुषोको यह लिखना चाहिये । जो कि अब दिखलाते है । अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अं अः, ह....।१। क ख ग घ ङ, भ....।२। च छ ज झ ञ, म....।३। ट ठ ड ढ ण, र....।४। त थ द ध न, घ....।५। प फ ब भ म, झ....।६। य र ल व, स....।७। श ष स ह, ख....।८। ह आदिके आगे जो बिंदु लिखी गई है वे मिले हुए अक्षरोंका बीजाक्षर है । जैसे हमलर व्यूँ । इसी तरह अन्य भी जानना । टाइपमे छप नहीं सक्ता सो यंत्रमे देख लेना ॥ १२ ॥

ततश्च बलयः कार्यो लेख्यास्तत्राष्टकोष्टकाः ।  
तत्रेति लेख्यं विबुधैश्चारुतुर्यान्वितविग्रहैः ॥ १३ ॥

अर्थ—इसके बाद फिर उसके चारो ओर आठ कोठोवाला गोला खींचना । उन कोठोमे चतुर शरीरधारी बुद्धिमानोको ऐसा लिखना चाहिये—ॐ ह्रीं अर्हद्भ्यो नमः । १ । ॐ ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः । २ । ॐ ह्रीं आचार्येभ्यो नमः । ३ । ॐ ह्रीं पाठकेभ्यो नमः । ४ । ॐ ह्रीं सर्वसाधुभ्यो नमः । ५ । ॐ ह्रीं तत्त्वदृष्टिभ्यो नमः । ६ । ॐ ह्रीं सम्यग्ज्ञानेभ्यो नमः । ७ । ॐ ह्रीं सम्यक्चारित्र्येभ्यो नमः । ८ । ॥ १३ ॥

ततश्च बलयः कार्यस्तत्र षोडशकोष्टकाः ।  
लेख्यास्तत्रेति लेख्यं च विद्वद्भिश्चतुरैर्नरैः ॥ १४ ॥

अर्थ—उसके बाद सोलह कोठोंवाला एक गोलाकार खेंचना चाहिये ।  
 उन सोलह कोठोंमें चतुर पुरुषोंको ऐसा लिखना योग्य है—ॐ ह्रीं  
 भावनेन्द्राय । १ । ॐ ह्रीं व्यंतरेन्द्राय । २ । ॐ ह्रीं ज्योतिष्केन्द्राय । ३ ।  
 ॐ ह्रीं कल्पेन्द्राय ४ ॐ ह्रीं श्रुतावधिभ्यो नमः ५ ॐ ह्रीं देशावधि-  
 भ्योनमः ६ ॐ ह्रीं परमावधिभ्यो नमः ७ ॐ ह्रीं सर्वावधिभ्यो  
 नमः ८ ॐ ह्रीं बुद्धिऋद्धिप्राप्तेभ्यो नमः ९ ॐ ह्रीं सर्वौषधिऋद्धि-  
 प्राप्तेभ्यो नमः १० ओ ह्रीं अनंतबलद्धिप्राप्तेभ्यो नमः ११ ओ ह्रीं  
 तप्तद्धिप्राप्तेभ्यो नमः १२ ओ ह्रीं रसद्धिप्राप्तेभ्यो नमः १३ ओ ह्रीं  
 विक्रियद्धिप्राप्तेभ्यो नमः १४ ओ ह्रीं क्षेत्रद्धिप्राप्तेभ्यो नमः १५ ओ ह्रीं  
 अक्षीणमहानसद्धिप्राप्तेभ्यो नमः ॥ १६ ॥ १४ ॥

ततश्च बलयः कार्यः चतुर्विंशतिकोष्टकः ।

तत्र लेख्याश्च कर्तव्याश्चतुर्विंशतिदेवताः ॥ १५ ॥

अर्थ—उसके पीछे चौबीस कोठोंवाला गोलाकार बनावे उन  
 कोठोंमें चौबीस जैन शासन देवताओंको लिखे । 'तद्यथा' वो ऐसे है—ओं  
 ह्रीं श्रियै १ ओ ह्रीं हीदेव्यै २ ॐ ह्रीं धृतये ३ ॐ ह्रीं लक्ष्म्यै ४ ॐ ह्रीं  
 गौर्यै ५ ॐ ह्रीं चण्डिकायै ६ ॐ ह्रीं सरस्वत्यै ७ ॐ ह्रीं जयायै ८  
 ॐ ह्रीं अंबिकायै ९ ॐ ह्रीं विजयायै १० ॐ ह्रीं क्लिनायै ११ ॐ ह्रीं  
 अजितायै १२ ॐ ह्रीं नित्यायै १३ ॐ ह्रीं मदद्रवायै १४ ॐ ह्रीं  
 कामागार्यै १५ ॐ ह्रीं कामवाणायै १६ ॐ ह्रीं सानंदायै १७ ॐ  
 ह्रीं नंदिमालिन्यै १८ ॐ ह्रीं मायायै १९ ओ ह्रीं मायाविन्यै २० ओं  
 ह्रीं रौद्र्यै २१ ओ ह्रीं कलायै २२ ओ ह्रीं काल्यै २३ ओं ह्रीं कलि-  
 प्रियायै २४ ॥ १९ ॥

ततो मायात्रिकोणे च देयं पत्रमनोहरं ।

सर्वविघ्नापहं चैतद्धीकारं प्रांतसंयुजं ॥ १६ ॥

**अर्थ**—उस यंत्रके चारों कोनोंमेंसे तीनमें तो पत्र अर्थात् ओं क्ष्वी क्षः इनको तथा चौथेमें विघ्नोंके दूर करनेवाले ही वर्णको, इस प्रकार ओ ही क्ष्वी क्षः चारोंको क्रमसे लिखना चाहिये ॥ १६ ॥ इस प्रकार यंत्र बना हुआ लगाया गया है उसको देखकर बनवाना ॥

**अथ पूजा**—( अब यंत्रकी पूजाका विधान लिखते हैं ) ।

तत्रादौ ॐ णमो अरहंताण मित्यादि पठित्वेदमृषिमंडलस्तोत्रं च पठित्वा यंत्रोपरि पुष्पाजलि क्षिपेत् । तद्यथा—

**अर्थ**— उस पूजा करनेके पहले ' ॐ णमो अरहंताणं ' इत्यादि पाठको पढ़कर यह आगे लिखे हुए ऋषिमंडल स्तोत्रको वांचकर यंत्रके ऊपर पुष्पोको ( क्षेपण करै ) वर्षावै—वह इस तरह है । ॐ णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्जायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं । चत्तारि मगलं अरहंत मगलं सिद्ध मंगल साहु मंगल केवलपण्णत्तो धम्मो मंगल । चत्तारि लोगतत्तमा अरहत लोगतत्तम । सिद्धलोगतत्तमा साहुलंगुत्तमा केवलपण्णत्तो धम्मो लोगतत्तमा । ३ । चत्तारि सरण प्रव्वजामि अरहंतसरणं प्रव्वजामि सिद्धसरणं पव्वजामि साहुसरणं पव्वजामि केवलपण्णत्तो धम्मोसरण पव्वजामि । एसो पंच- णमोयारो सब्बपापपणासणो । मंगलाणं च सब्बेसि पढमं होइं मंगल ॥ इस प्रकार पाठको शुद्ध पढ़ना ।

अथातः ऋषिमंडलस्तोत्रं पठेत् ( इसके बाद ऋषिमंडलस्तोत्र का पाठ करे )

आद्यंताक्षरसंलक्ष्यमक्षरं व्याप्य यत्स्थितं ।

अग्निज्वालासमं नादं विंदुरेखासमन्वितं ॥ १ ॥

अग्निज्वालासमाक्रांतं मनोमलविशोधनं ।

दैदीप्यमानं हृत्पद्मे तत्पदं नौमि निर्मलं ॥ २ ॥ युग्मं ।

**अर्थ**—आदिके अक्षर अ और अंतके अक्षर ह को लिखना । इन दो अक्षरोंके बीचमे सब वर्ण आ जाते हैं । अंतके वर्णको अग्नि-ज्वाला (र) में मिलाना उसका मस्तक विंदु और अर्धचंद्र रेखा सहित करना अर्थात् 'अर्ह' ऐसा बना । कैसा वह है ? अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशमान है मनके मैलको धोनेवाला है आप निर्मल है और अर्हत पदका कहनेवाला है । ऐसे प्रकाशमान 'अर्ह' पदको हृदयरूपी कमलमे स्थापन करके मनवचन कायसे मै नमस्कार करता हूँ ॥ १ । २ ॥

ॐ नमोर्हद्भ्य ईशेभ्य ॐ सिद्धेभ्यो नमोनमः ।

ॐ नमः सर्वसूरिभ्यः उपाध्यायेभ्य ॐ नमः ॥ ३ ॥

ॐ नमः सर्वसाधुभ्यः तत्त्वदृष्टिभ्य ॐ नमः ।

ॐ नमः शुद्धबोधेभ्यश्चारित्रेभ्यो नमोनमः ॥४॥ युगं ।

**अर्थ**—अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र—इन आठोंको बार २ नमस्कार होवै ॥३॥४॥

श्रेयसेस्तु श्रियेस्त्वेतदर्हदाद्यष्टकं शुभं ।

स्थानेष्वष्टसु संन्यस्तं पृथग्बीजसमन्वितं ॥ ५ ॥

**अर्थ**—ये अर्हत आदि आठपद कल्याण स्वरूप बीजाक्षर सहित जुदे २ आठ दिशाओमे स्थापन किये गये मुख देवे और लक्ष्मीको देवै ॥ ५ ॥

आद्यं पदं शिरो रक्षेत् परं रक्षतु मस्तकं ।

तृतीयं रक्षेन्नेत्रे द्वे तुर्यं रक्षेच्च नासिकां ॥ ६ ॥

पंचमं तु मुखं रक्षेत् षष्ठं रक्षतु घंटिकां ।

सप्तमं रक्षेन्नाभ्यंतं पादांतं चाष्टमं पुनः ॥ ७ ॥ युगं ।

**अर्थ**—अर्हतादि आठ पदोंमें क्रमसे पहला अरहंतपद शिरकी रक्षा करो, दूसरा सिद्धपद माथेकी रक्षा करो, तीसरा आचार्य पद दो नेत्रोंकी चौथापद नासिका ( नाक ) की पांचवां मुखकी, छठा गलेकी सातवां नाभि ( टुंडी ) की और आठवां सम्यक् चारित्रपद पैरों की रक्षा करो ॥ ६ ॥ ७ ॥

### मंत्र बनानेका विधि

पूर्वं प्रणवतः सांतः सरेफो द्वित्रिपंचषान् ।

सप्ताष्टदशसूर्याकान् श्रितो विंदुस्वरान् पृथक् ॥ ८ ॥

पूज्यनामाक्षराद्यास्तु पंच दर्शनबोधनं ।

चारित्र्येभ्यो नमो मध्ये हीं सांतसमलंकृतः ॥ ९ ॥

**अर्थ**—पहले तो प्रणव अर्थात् ॐ को लिखे बादमें सकारांत अर्थात् ह को रेफ मिलाकर जुदा रखकरके उसपर अलग २ दूसरी आकारकी मात्रा, तीसरी इकारकी, पाचवीं उकारकी छठीं ऊ की सातवीं ए की, आठवीं ऐ की दशवीं औ की मात्रा विदुओं सहित लगावै और बारमी अः की मात्रा लगावै अर्थात् हा हिं हु हूं हे हैं हौं हः—इस तरह लिखै । उसके बाद पूज्य पाच परमेष्ठियोके आदिके अक्षर पांच लेवै अर्थात् अ सि आ उ सा—इस प्रकार लिखै । और 'सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्रेभ्यो' लिखकर अंतके 'नमः' से शोभायमान हीं को दोनो पदोंके मध्यमे लिखै । तब सब मंत्र मिलकर ॐ हा हिं हुं हू हैं हैं हौं हः अ सि आ उ सा सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्रेभ्यो हीं नमः । ऐसा सत्ताईस अक्षरका मंत्र तयार हुआ ॥ ८ । ९ ॥

वीज इति ऋपिमंडलस्तवस्य यंत्रस्य मूलमंत्रः, आराधकस्य शुभः  
नवबीजाक्षरः अष्टादशशुद्धाक्षरः। एवमेकत्र सप्तविंशत्यक्षररूपः ( २७ )

**अर्थ**—इस ऋषिमंडलस्तवन यंत्रका मूलमंत्र सत्ताईस अक्षरका है, जिसमें नौ ९ वीज अक्षर हैं और अठारह शुद्ध अक्षर हैं। यह मंत्र आराधना ( जाप ) करनेवालोको सब मनोकामना पूर्ण कर देनेसे शुभ है। इस मंत्रमें ॐ अक्षर पहले लगता है वह गिनतीमें नहीं आता परंतु उसके लगनेसेही मंत्रशक्ति प्रगट होती है ॥

जंबूवृक्षधरो द्वीपः क्षारोदधिसमावृतः ।

अर्हदाद्यष्टकैरष्टकाष्टाधिष्टैरलंकृतः ॥ १ ॥

तन्मध्ये संगतो मेरुः कूटलक्षैरलंकृतः ।

उच्चैरुच्चैस्तरस्तारतारामंडलमंडितः ॥ २ ॥

तस्योपरि सकारांतं वीजमध्यास्य सर्वगं ।

नमामि विंभमार्हत्यं ललाटस्थं निरंजनं ॥ ३ ॥ विशेषकं

**अर्थ**—जंबूवृक्षको धारण करनेवाला द्वीप अर्थात् जंबूद्वीप है उसके चारों तरफ लवण समुद्र है। वह द्वीप आठदिशाओके स्वामी अर्हत आदि आठ पदोंसे शोभायमान है। उसके मध्यभाग ( बीच ) में सुमेरु पर्वत है वह बहुत कूटोसे शोभायमान है। और उसके चारों तरफ एकके ऊपर एक ज्योतिश्चक्रको परिक्रमा देनेसे बहुत रमणीक मालूम होता है। ऐसे सुमेरु पर्वतके ऊपर सकारात वीज ( ह्री )को विराजमान करके उसमें बैठे हुए घाति कर्मरूप अंजन रहित अर्हत भगवानको ललाट ( मस्तक ) में स्थापित करके नमस्कार पूर्वक ध्यान करे ॥१॥२॥३॥

अक्षयं निर्मलं शांतं बहुलं जाड्यतोज्झितं ।

निरीहं निरहंकारं सारं सारतरं घनं ॥ ४ ॥

अनुद्धतं शुभं स्फीतं सात्त्विकं राजसं मतं ।

तामसं विरसं बुद्धं तैजसं शर्वरीसमं ॥ ५ ॥

साकारं च निराकारं सरसं विरसं परं ।

परापरं परातीतं परं परपरापरं ॥ ६ ॥

सकलं निष्कलं तुष्टं निर्वृतं भ्रातिवर्जितं ।

निरंजनं निराकांक्षं निर्लेपं वीतसंशयं ॥ ७ ॥

ईश्वरं ब्रह्मणं बुद्धं शुद्धं सिद्धमभंगुरं ।

ज्योतीरूपं महादेवं लोकालोकप्रकाशकं ॥ ८ ॥ कुलकं

अर्थ—अब अर्हंतके बिंबके ध्यानका स्वरूप बतलाते हैं कि अर्हंत भगवानका बिंब, अक्षय अर्थात् जन्ममरणरूप नाश रहित हैं, कर्म-रूपी मलसे रहित है शांत मुद्रावाला है, विस्तार वाला है, अज्ञानता रहित है इच्छा रहित है अहंकार रहित है श्रेष्ठ है अत्यंत श्रेष्ठ है सघन है मदसे ( उद्धतपनेसे ) रहित है शुभ है स्वच्छ है शांतिगुण होनेसे सात्त्विक है, तीन लोकका मालिकपना होनेसे राजसगुण वाला है आठकर्मोंके नाश करनेके लिये तामस गुणयुक्त है शृंगार वगैरः रसोसे रहित है ज्ञानवान है तैजस है पूनमकी चादनी रातिके समान आनंद-कारी है । अर्हंतकी अपेक्षा शरीर सहित होनेसे साकार है सिद्धकी अपेक्षा शरीर रहित होनेसे निराकार ( आकार रहित ) है ज्ञानरससे भरा हुआ है लेकिन रसादिविषयसे रहित है । उत्कृष्ट है क्रमसे उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट है । सकल अर्थात् अर्हंत अपेक्षा शरीर सहित है सिद्धकी अपेक्षा निष्कल शरीर रहित है संतोषको उपजानेवाला है भ्रमण रहित है कर्माजनसे जुदा है इच्छासे अलग है कर्मलेप रहित है सशय रहित है सब भव्यजीवोंको हितकी शिक्षा देनेसे ईश्वर है ब्रह्मरूप है बुद्ध रूप है अठारह दोषोंके न होनेसे शुद्ध है कृतकृत्य है आवगमन ससारमे न होनेसे क्षणभंगुरतासे रहित है । देवोंसे पूजनीक होनेसे महादेव

है तीन लोक और अलोकको अपने ज्ञानसे प्रकाशनेवाला है। ऐसे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये।

**अर्हदारुयः सवर्णातः सरेफो विंदुमंडितः ।**

**तुर्यस्वरसमायुक्तो बहुध्यानादिमालितः ॥ ९ ॥**

**एकवर्णं द्विवर्णं च त्रिवर्णं तुर्यवर्णकं ।**

**पंचवर्णं महावर्णं सपरं च परापरं ॥ १० ॥ युग्मं**

**अर्थ**—अर्हंतका वाचक सवर्णांत अर्थात् हकार है वह रेफ और विंदुसे शोभायमान तथा चौथे ईकार स्वरसे युक्त है। जो मिलकर हीं वीजवर्ण है वह ध्यान करने योग्य है। वह वीज अक्षर एक (मफेद) रंगवाला है दो (श्याम) रंगवाला है तीन (लाल) वर्णवाला है। चार (नीला) वर्णवाला है और पाचवा (पीला) वर्णवाला भी है। और वह सपर भी अर्थात् हकार भी अत्यंत उत्कृष्ट है। १।१० ॥

**अस्मिन् वीजे स्थिताःसर्वे ऋपभाद्या जिनोत्तमाः ।**

**वर्णैर्निर्जैर्निर्जैर्युक्ता ध्यातव्यास्तत्र संगताः ॥११॥**

**अर्थ**—इस हीं बीजाक्षरमे सम्पूर्ण चौबीसो ऋपभादितीर्थकर भगवान विराजमान है उनका अपन २ वर्णोंसे सहित ध्यान करना चाहिये ॥ १ ॥ आगे हीं के पाचवर्ण ( रग ) लिखते हैं;—

**नादश्रंद्रसमाकारो विंदुनीलसमप्रभः ।**

**कलारुणसमा सांतःस्वर्णाभः सर्वतो मुखः ॥ १२ ॥**

**शिरःसंलीन ईकारो विनीलो वर्णतःस्मृतः ।**

**वर्णानुसारसंलीनं तीर्थकृन्मंडलं नमः ॥ १३ ॥ युग्मं**

**अर्थ**—हीं वीजाक्षरकी नादकला आवे चद्रमाके आकार है वह सफेद रंग वाली है, विंदु काले रंगवाली है, मस्तकरूप कला (भाग) लाल रंगकी प्रभावाली है, सांत यानी हकार चारो तरफसे सोनेके

समान पीले रंगवाला है और माथेमें मिला हुआ ईकार नीले वर्णका है। उस हीमें अपने २ रंगके अनुसार तीर्थकर समूहका स्थापन किया गया है उसको नमस्कार है ॥ १२ । १३ ॥ अब इन पांचों भागोंमें तीर्थकरोंको रंगके अनुसार स्थापन करनेकी विधि बतलाते हैं;—

चंद्रप्रभपुष्पदंतौ नादस्थितिसमाश्रितौ ।

विंदुमध्यगतौ नेमिसुव्रतौ जिनसत्तमौ ॥ १४ ॥

पद्मप्रभवामुपूज्यौ कलापदमधिश्रितौ ।

शिर ईस्थितिसंलीनौ पार्श्वपार्श्वौ(मल्ली)जिनोत्तमौ॥१५

शेषास्तीर्थकराःसर्वे रहस्थाने नियोजिताः ।

मायावीजाक्षरं प्राप्ताश्चतुर्विंशतिरर्हतां ॥ १६ ॥

गतरागद्वेषमोहाःसर्वपापविवर्जिताः ।

सर्वदा सर्वलोकेषु ते भवंतु जिनोत्तमाः ॥ १७॥ कलापकं

अर्थ—चंद्रप्रभ पुष्पदंत—ये दो तीर्थकर अर्धचंद्राकार नादकलामें स्थापन करने, बिंदीके मध्यमे नेमिनाथ मुनिसुव्रतनाथ—इन दोनों जिनेन्द्रदेवोको, पद्मप्रभवामुपूज्य—इन दोनोको कलाके स्थान मस्तकमें, मस्तकमें मिला हुई ईकारमे सुपार्श्व और पार्श्वनाथ—इन दोनोंको स्थापन करै । और बाकीके सौलह तीर्थकरोको रकार हकार—इन वणोंके मध्यमे लिखै । इस प्रकार चौबीसो तीर्थकर मायाबीज ( हीं ) में स्थित हैं । वो जिनेन्द्र देव रागद्वेष मोह-इन तीनोसे रहित है सब पापकर्मोंसे रहित है । ऐसे जिनेश्वर देव तीन काल और तीन लोकमें दर्शनपथको प्राप्त होवें । १४।१५।१६।१७॥

अब सर्पादिके भयकी रक्षाके मंत्र श्लोक कहते हैं;—

देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा ।

तयाच्छादितसर्वांगं मां मा हिंसंतु पन्नगाः ॥ १८ ॥

अर्थ—देवोंके देव श्रीजिनेन्द्रदेव रूपी तीर्थंकरोंके समूहकी प्रभासे ढके हुए मेरे सब शरीरको सर्प जातिके जीव पीडा मत दो । यह सर्पके भय दूर करनेका श्लोक है । इसी तरह आगे भी भयरक्षाके श्लोक कहे जाते हैं ॥ १८ ॥

देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा ।

तयाच्छादितसर्वांगं मां मा हिंसंतु नागिनी ॥ १९ ॥

इसका अर्थ पहलेके समान है परंतु चौथाई चरणमें सर्पकी जगह नागिनी ( सर्पिणी ) का अर्थ कर लेना । इसी तरह आगे भी रक्षा श्लोकोंमें पूर्वकथित अर्थ जानना । केवल नाममात्र बदले जाइंगे । यह नागिनिसे रक्षा करनेका श्लोक है ॥ १९ ॥

देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा ।

तयाच्छादितसर्वांगं मां मा हिंसंतु गोनसाः ॥ २० ॥

यह गोनस ( गोह ) से रक्षा करनेका श्लोक है ॥ २० ॥

देवदेव० ..... वृश्चिकाः ॥ २१ ॥ यह वीछूका है ।

देवदेव० ..... काकिनी ॥ २२ ॥ यह कांक का है ।

देवदेव० ..... डाकिनी ॥ २३ ॥ यह डाकिनी का है ।

देवदेव० ..... साकिनी ॥ २४ ॥ यह साकिनीका है ।

देवदेव० ..... राकिनी ॥ २५ ॥ यह राकिनीका है ।

देवदेव० ..... लाकिनी ॥ २६ ॥ यह लाकिनीका है ।

देवदेव० ..... शाकिनी ॥ २७ ॥ यह शाकिनीका है ।

देवदेव० ..... हाकिनी ॥ २८ ॥ यह हाकिनीका है ।

देवदेव० ..... राक्षसाः ॥ २९ ॥ यह राक्षसका है ।

देवदेव० ..... व्यंतराः ॥ ३० ॥ यह व्यंतरदेवोंका है ।

देवदेव० ..... भेकसाः ॥ ३१ ॥ यह भेकसका है ।

- देवदेव०.....ते प्रहाः ॥ ३२ ॥ नव ग्रहोंका है ।  
 देवदेव०.....तस्कराः ॥ ३३ ॥ चोरोंका है ।  
 देवदेव०.....वह्यः ॥ ३४ ॥ अग्निका है ।  
 देवदेव०.....शृंगिणः ॥ ३५ ॥ सींगवालेजीवोंका है ।  
 देवदेव०.....दंष्ट्रिणः ॥ ३६ ॥ बड़ी २ दाढ़वालोंका है ।  
 देवदेव०.....रेलपाः ॥ ३७ ॥ रेलपजीवोंका है ।  
 देवदेव०.....पक्षिणः ॥ ३८ ॥ पंखवालोंका है ।  
 देवदेव०.....मुद्गलाः ॥ ३९ ॥ मुगल ( ग ) दैत्यका है ।  
 देवदेव०.....जृम्भकाः ॥ ४० ॥ जृम्भकदेवका है ।  
 देवदेव०.....तोयदाः ॥ ४१ ॥ जलस्थानका है ।  
 देवदेव०.....सिंहकाः ॥ ४२ ॥ नाहरका है ।  
 देवदेव०.....शूकराः ॥ ४३ ॥ सूअरका है ।  
 देवदेव०.....चित्रकाः ॥ ४४ ॥ सीतलाका है ।  
 देवदेव०.....हस्तिनः ॥ ४५ ॥ हाथीका है ।  
 देवदेव०.....भूमिपाः ॥ ४६ ॥ राजाका है ।  
 देवदेव०.....शत्रवः ॥ ४७ ॥ दुश्मनका है ।  
 देवदेव०.....ग्रामिणः ॥ ४८ ॥ खेतकी रक्षावालेका है ।  
 देवदेव०.....दुर्जनाः ॥ ४९ ॥ दुष्टका है ।  
 देवदेव०.....व्याधयः ॥ ५० ॥ रोगका है ।

श्रीगौतमस्य या मुद्रा तस्या या भुवि लब्धयः ।

ताभिरभ्यधिकं ज्योतिरर्हं सर्वनिधीश्वरः ॥ ५१ ॥

अर्थ—श्रीगौतमस्वामी गणधर देवका जो स्वरूप उसकी लब्धि  
 ( जोति ) पृथ्वीपर व्यापारही है उस ज्योतिसेभी अधिक ज्योति ( प्रकाश )  
 अरहंत भगवानकी है । वह भगवान सब विद्याओंका खजाना है ॥ ५१ ॥

**पातालवासिनो देवा देवा भूपीठवासिनः।**

**स्वःस्वर्गवासिनो देवाः सर्वे रक्षंतु मामितः ॥ ५२ ॥**

अर्थ—पाताल निवासी भवनवासीदेव, व्यंतरदेव, कल्पवासी दोनों तरहके देव सभी मेरी रक्षा करो ॥ ५२ ॥

**येऽवधिलब्धयो ये तु परमावधिलब्धयः।**

**ते सर्वे मुनयो दिव्या मां संरक्षंतु सर्वतः । ५३ ॥**

अर्थ—जो अवधिज्ञानकी लब्धिवाले और जो परमावधि ज्ञानकी सिद्धिवाले १२ वें गुणस्थानवर्ती प्रकाशमान मुनीश्वर मेरी सब तरफसे रक्षाकरो ॥ ५३ ॥

भावेनेन्द्र व्यंतरेद्र ज्योतिष्केद्र कल्पेन्द्रेभ्यो नमः । श्रुतावधि देशावधि परमावधि सर्वावधि बुद्धिऋद्धिप्राप्त सर्वौषधिप्राप्तानंतबलर्द्धिप्राप्त रसर्द्धिप्राप्त विक्रियार्द्धिप्राप्त क्षेत्रधिप्राप्ताक्षीणमहानसर्धिप्राप्तेभ्यो नमः ।

भावार्थ—भवनवासी आदिक १६ पदोंको नमस्कार है जो कि यंत्रके सोलह कोटोमे है ।

**ॐ श्रीःहीश्च धृतिर्लक्ष्मीः गौरी चंडी सरस्वती ।**

**जया वा विजया किलाना जिता नित्या मदद्रवा ॥ १ ॥**

**कामांगा कामवाणा च सानंदा नंदमालिनी ।**

**माया मायाविनी रौद्री कला काली कलिप्रिया ॥ २ ॥**

**एताः सर्वा महादेव्यो वर्तते या जगत्रये ।**

**मम सर्वाः प्रयच्छंतु कांतिं लक्ष्मीं धृतिं मतिं ॥ ३ ॥**

**विशेषकं**

भावार्थ—श्री ही वगैरः चौबीस जिनशासनकी रक्षा करनेवाली देवीं जो तीन लोकमे वर्तमान है वे सब महादेवीं मुझको कांति लक्ष्मी धैर्य और बुद्धिको दैवै ॥ १।२।३ ॥

दुर्जना भूतवेतालाः पिशाचा मुद्गलास्तथा ।

ते सर्वे उपशाम्यंतु देवदेवप्रभावतः ॥ ४ ॥

अर्थ—दुष्टजन, भूत, वैताल, पिशाच और मुर्गेदैत्य—ये सब मिथ्याती रौद्र परिणामी जीव श्रीजिनेन्द्रदेवके प्रभावसे शांत होवै ॥४॥

दिव्यो गोप्यः सुदुष्प्राप्यः श्रीऋषिमंडलस्तवः ।

भाषितस्तीर्थनाथेन जगत्राणकृतोऽनघः ॥ ५ ॥

अर्थ—ये ऋषिमंडलस्तोत्र बहुत तेज स्वरूपहै, हरएकको दिखलाने योग्य नहीं है अर्थात् श्रद्धानी ही पात्र हो सकता है। क्योंकि गुप्त रखा जावे वही मंत्रका लक्षण है। इसका अभिप्राय कठिनतासे माद्धम पडता है, जगतकी रक्षा करनेवाला है और निर्दोष है श्री महावीर तीर्थकर देवने कहा है ॥ ५ ॥

यंत्रमंत्रका फल ।

रणे राजकुले वद्वौ जले दुर्गे गजे हरौ ।

श्मशाने विपिने घोरे स्मृतो रक्षति मानवं ॥ ६ ॥

अर्थ—युद्धमें, राजदरबारमे, अग्निसे, जलसे, किलेमे, हाथीसे, सिंहसे, मसानभूमिमे, और निर्जन वनमे यह मंत्र स्मरण ( याद ) किया जानेपर मनुष्यकी रक्षा करता है ॥ ६ ॥

राज्यभ्रष्टा निज राज्यं पदभ्रष्टा निजं पदं ।

लक्ष्मीभ्रष्टा निजां लक्ष्मीं प्राप्नुवति न संशयः ॥७॥

अर्थ—राज्यसे छूटे हुए अपने राज्यको, मंत्री वगैरः पदसे रहित हुए अपने पदको, लक्ष्मी ( धन ) से रहित हुए अपने धनको पाते है। इसमे कुछ संदेह ( शक ) नहीं करना ॥ ७ ॥

भार्यार्थी लभते भार्या पुत्रार्थी लभते सुतं ।

धनार्थी लभते वित्तं नरः स्मरणमात्रतः ॥ ८ ॥

अर्थ—इस स्तोत्रवगैरःके स्मरणके ही करनेसे स्त्रीके चांहेनेवालेको स्त्री, पुत्रके इच्छकको पुत्र और धनकी इच्छावाले मनुष्यको धनकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥

स्वर्णे रूप्ये पटे कांसे लिखित्वा यस्तु पूजयेत् ।

तस्यैवेष्टमहासिद्धिर्गृहे वसति शास्वती ॥ ९ ॥

अर्थ—इस यंत्रको सोने चांदी कपडे व कांसे या तांबेके पत्रपर लिखकर पूजे तो उसके घरमें हमेशा बांछित अर्थकी महान सिद्धि रहती है । अर्थात् ये मंत्र चिंतामणि रत्न है ॥ ९ ॥

भूर्जपत्रे लिखित्वेदं गलके भूर्ध्रि वा भुजे ।

धारितः सर्वदा दिव्यसर्वभीतिविनाशनं ॥ १० ॥

अर्थ—इस यंत्रको भोजपत्र नामके पत्तेपर लिखकर ताबीजमें भरकर गलेमें या मस्तकमें या बांहमे पहरलेवे तो हमेशा दैवीभूतवगैरः की बाधाओंसे रहित हो जाता है ॥ १० ॥

भूतैः प्रेतैर्ग्रहैर्यक्षैः पिशाचैर्मुद्गलैस्तथा ।

वातपित्तकफोद्भ्रकमुच्यते नात्रसंशयः ॥ ११ ॥

अर्थ—भूत प्रेत नवग्रह यक्ष पिशाच मुगलदैत्य और वात पित्त कफ आदि रोगोंके उपद्रवोंसे छूट जाता है । इसमें संशय नहीं समझना चाहिये ॥ ११ ॥

भूर्भुवः स्वस्त्रयीपीठवर्तिनः शास्वता जिनाः ।

तैः स्तुतैर्वैदितैर्दृष्टैर्यत्फलं तत्फलं स्मृतेः ॥ १२ ॥

अर्थ—अधोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक वर्ती अकृत्रिम जिनचैत्यालय हैं उनके स्तवन, वंदना और दर्शन करनेसे जो फल मिलता है उतना ही फल इस स्तोत्र वगैरःके स्मरण करनेसे प्राप्त होता है । यह अंतिम फल है ॥ १२ ॥

**एतद्गोप्यं महास्तोत्रं न देयं यस्य कस्यचित् ।**

**मिथ्यात्ववासिनो देये बालहत्या पदे पदे ॥ १३ ॥**

**अर्थ**—यह महान स्तोत्र छिपाके रखना चाहिये हर किसीको नहीं देना, योग्य पात्रको ही बतलाना चाहिये। मिथ्यातीको देनेसे पद पदपर बालहत्याके समान पाप होता है ॥ १३ ॥

**मंत्रकी विधि ।**

**आचाम्लादितपः कृत्वा पूजयित्वा जिनावलिं ।**

**अष्टसाहस्रिको जाप्यः कार्यस्तत्सिद्धिहेतवे ॥ १४ ॥**

**अर्थ**—आचाम्ल ( आंवल ) आदि तप करके चौबीस जिन भगवानकी पूजाकरके आठ हजार जाप इष्टकार्यकी सिद्धिके लिये करना चाहिये ॥ **भावार्थ**—जमीनपर सोना, ब्रह्मचर्य, एक दफै दिनमें भोजन करना। जिसमें शक्ति हो तो मांडसहित चांवलके भातको केवल खाना और सब रसोंका त्याग। ऐसी क्रियाको **अचाम्ल तप** कहते हैं। उसके यदि शक्ति कम हो तो **निर्विकृति तप** 'अर्थात् एकवार शुद्ध भोजन और दूध, दही, घी, तेल, मिठाई, नमक—इन छह रसोमेसे किसीका त्याग करना, जिससे विकार आलस्य न हो ऐसा भोजन' करना चाहिये इन दोनोंमेसे इच्छित कोई एक तप करै जब तक कि ८००० आठ हजार जाप पूरे न हों। प्रति दिन सवेरेके समय सूर्यके दो घड़ी पहले उठकर शौचादि क्रिया करके मनवचन कायको स्थिर कर सामने यंत्र रखके पूजन व जप करना चाहिये। सौ दानेकी माला वनवाकर शुद्ध कपडे पहनके शक्तिके माफिक पांच दफै फेरनेसे पांचसौ या दस दफै फेरनेसे एक हजार जाप हो जाते हैं। इस लिये जाप करने वालेको आठ दिन या सोलह दिन लगेगे। उतने दिनों तक क्रोध वगैरः कषायोंको बिलकुल न उत्पन्न होने देवै। श्रद्धान रखके शुद्ध मन वचन

कायसे करनेपर मन बांछित कार्यकी सिद्धि अवश्य होती है लेकिन विधीमें कमी न होवै ॥ १४ ॥

शतमष्टोत्तरं प्रातर्ये पठन्ति दिने दिने ।

तेषां न व्याधयो देहे प्रभवन्ति च संपदः ॥ १५ ॥

अर्थ—जो भव्य जीव शुद्धयोगसे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एकसौ आठवारकी एक माला फेरते हैं और स्तोत्रका पाठ पढते हैं उनके शरीरमें रोग प्रगट नहीं होते वल्कि संपदायें उनके घरमें प्रगट होती हैं ॥ १५ ॥ इस प्रकार लौकिक फल कहकर अब असली पारमार्थिक फल कहते हैं;—

अष्टमासावधिं यावत् प्रातः प्रातस्तु यः पठेत् ।

स्तोत्रमेतन्महातेजस्त्वर्हद्विभं स पश्यति ॥ १६ ॥

दृष्टे सत्यार्हते विंबे भवे सप्तमके ध्रुवं ।

पदं प्राप्नोति विश्रस्तं परमानंदसंपदां ॥ १७ ॥ युग्मं

अर्थ—मन वचन कायको शुद्ध करके स्थिर होकर सबेरे हररोज पहली कही हुई विधिसे पाठ करता हुआ आठवे महीनेमें अर्हत भगवानके विंबका दर्शन अपने ललाटके ऊपर करलेता है । और अर्हत प्रभुकी छबिके दर्शन होनेसे सांतवे भव ( जन्म ) में निश्चयसे परम अतीन्द्रिय स्वाधीन आनंदका स्थान ऐसे मोक्ष पदको पाता है ॥ १६।१७॥

इति श्री ऋषिमंडलस्तवनं ( इस प्रकार श्री ऋषिमंडल स्तोत्र समाप्त हुआ ) एतत् पठित्वा यंत्रोपरि पुष्पाजलिं क्षिपेत् ( यह स्तोत्र पढकर यंत्रके ऊपर पुष्पांजलि वखैरे ) ।

अथ चतुर्विंशति तीर्थकर पूजा ( अब यंत्रके कोठेमें रहनेवाले चौबीस तीर्थकरोंकी पूजा कहते हैं ) ।

ये जित्वा निजकर्मकर्मशरिपून् कैवल्यमाभेजिरे  
दिव्येन ध्वनिनावबोधनिखिलं चक्रम्यमाणं जगत् ।  
प्राप्ता निर्द्वैतिमक्षयामतितरामंतातिगामादिगां  
यक्ष्ये तान् वृषभादिकान् जिनवरान् वीरावसानानहं ॥

ओ ही ऋषभादिवर्धमानांतास्तीर्थकरपरमदेवा अत्रावतरतावतरत  
संवौषट् । अनेन कर्णिकामध्ये पुष्पांजलि प्रयुज्यावाहयेत् । आह्वाननं ॥  
( इस मंत्रसे यंत्रकी कर्णिकामें पुष्प क्षेपकर सब तीर्थकरोका आह्वा-  
नन ( आदरसे बुलाना ) करै । इस प्रकार आह्वानन हुआ । ॐ ह्रीं  
ऋषभादिवर्धमानांतास्तीर्थकरपरमदेवा अत्र तिष्ठत २ ठः ठः । अनेन  
कर्णिकामध्ये पुष्पांजलि प्रयुज्य प्रतिष्ठापयेत् । स्थापनं । ( इस मंत्रसे  
कर्णिकामें पुष्पोंको क्षेपण करके चौबीसोंको स्थापै ) यह स्थापना हुई ।

ॐ ह्रीं ऋषभादि वर्धमानांतास्तीर्थकर परमदेवा अत्र मम सन्निहिता  
भवत २ वषट् । अनेन कर्णिकामध्ये पुष्पाजलि प्रयुज्य संनिधापयेत् ।  
( इस मंत्रसे कर्णिकामें ( बीचमें ) पुष्प क्षेपकर अपने निकट करै ) इसको  
संनिधान कहते हैं ।

अथ पूजा ( अब अष्टद्रव्यादिसे पूजाकी विधि कहते हैं ) ।

कर्पूरपंकजपरागसुगंधशीलैः  
राकाशशांकविमलैः सलिलैर्जलौघैः ।  
सन्मित्रतामुपगतैर्मधुरैर्लघिष्ठै—  
द्विर्द्वादशप्रमजिनांघ्रियुगं महामि ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं ऋषभाजित सभवाभिनंदन सुमति पद्मप्रभसुपार्श्व चंद्रप्र-  
भपुष्पदंतशीतल श्रेयांस वासुपूज्यविमलानंत धर्मशांतिकुंथु अरमल्लिमुनि-  
सुव्रतनामिनेमि पार्श्ववर्धमानेभ्यस्तीर्थकरपरमदेवेभ्यो जलं निर्वपामि इति

स्वाहा । जलं । एवं गंधादिष्वपि योज्यं ( जैसे जल चढानेमें ॐ ह्रीं  
आदि कहा गया है वैसे ही चंदन वगैरः में समझ लेना ) ।

काश्मीरपूरघनसारगतोर्ध्वभावैर्बाह्यांतरंगपरितापहरैः  
पवित्रैः ।

श्रीचंदनोत्कटरसैः सुरसैः सुभक्त्या द्विर्द्वादशप्रमजिनांघ्रि०  
ॐ ह्रीं ऋषभाजितेत्यादि....गंधं निर्वपामीति स्वाहा ।

माधुर्यगंधनिवहान्वितदिव्यदेहैः कुंदेन्दुसागरकफोज्ज्वल-  
चारुशोभैः ।

शाल्यक्षतैः सुभगपात्रगतैरखंडैर्द्विर्द्वादशप्रमजिनांघ्रि० ॥३॥  
ॐ ह्रीं ऋषभादि....अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

मंदारकुंदकमलान्वितपारिजातजातीकदंबभसलातिथिस-  
त्प्रसूनैः ।

गंधागतभ्रमरजातरवप्रशस्तैर्द्विर्द्वादशप्रमजिनांघ्रि० ॥ ४ ॥  
ॐ ह्रीं....पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

नानारसैर्जिनवरैरिव चारुरूप्यैः श्रीकामदेवनिवहैरिवभक्ष-  
जातैः ।

सव्यंजनैःस्वरकरैरिवलक्षणोघैर्द्विर्द्वादशप्रमजिनांघ्रि० ॥ ५॥  
ॐ ह्रीं....चरुं निर्वपामीति स्वाहा ।

दीपत्रजैरमलकीलकलापसारैर्निर्द्धूमतामुपगतैःसरलज्वलद्भिः ।  
पीतद्युतिप्रचयनिर्जितजातरूपैः द्विर्द्वादशप्रमजिनांघ्रि० ॥ ६ ॥  
ॐ ह्रीं.... दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कृष्णागुरुप्रमुखसारसुगंधद्रव्यप्रोद्भूतमूर्तिभिरलं वरधूपजालैः ।  
धूमत्रजप्रमुदितादितिनंदनौघैःद्विर्द्वादशप्रमजिनांघ्रि० ॥ ७ ॥  
ॐ ह्रीं.....धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

नारंगपूगकदलीफलनालिकेरसन्मातुलिंगकरकप्रभुत्वैः फलौघैः  
शाखासु पाक्यमधिगम्य विरक्तचित्तैः द्विर्द्वादशप्रमजिनांघ्रि० ८

ॐ ह्रीं....फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जलगंधाक्षतैः पुष्पैः चरुभिर्दीपधूपकैः ।

फलैरर्घ्यं विधायैव श्रीजिनेभ्यो ददे मुदा ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं....अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अथ प्रत्येक पूजा ( अब हरएककी जुदी २ पूजा कहते हैं ) ।

आनंदमेदुरशरीरमनंतबोधगंधीरनादविहितांबुधराववर्धेः।

वापीयनाभिजजिनाञ्जुतनाममेधं धर्मोपदेशजलजीवकृतानुरोधं

ॐ ह्रीं जगदापद्विनाशनसमर्थाय श्रीऋषभतीर्थकरपरमदेवाय जलादि  
निर्वपामीति स्वाहा ।

संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुं ध्यानाभितापपरितापितमीनकेतुं ।

संपूजयेयमजितं जितरागशत्रुं निर्वाणमंतगतसीमसुसर्मगंतुं २

ॐ ह्रीं जगदापद्विनाशनसमर्थाय श्रीअजिततीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

ध्याजानलप्रसरदग्धविधींदुकंदं श्रीसंभवं गतभवं नितराममंदं ।

देवावतंसविलसंतपदारविंदं सेवेय सप्तवरकेतुमनंतनंदं ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं जगदापद्विनाशनसमर्थाय श्रीसंभवतीर्थकरपरमदेवाय ज-  
लादि० ।

पीयूषलेशनिवहोपगताभिषेकनिर्भासितारिखलशरीरगतातिरेकं

संपूजयेयमभिनंदनदेवमेकं कारुण्यवारिविहितासिलजीवसेकं

ॐ ह्रीं जगदापद्विनाशनसमर्थाय श्रीअभिनंदनतीर्थकरपरमदे-  
वाय जलादि० ।

कोकांकमानसजिताखिलपुंडरीकं पादावलमसुरसंधाविलीनपंकं  
अन्वर्थनामसहितं सुमतिं निरेकं वंदेयमानसतमोहरभव्यलोकं ५  
ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीसुमतितीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

शोभाविशेषनिहतोद्धतवादिमानं सत्पुंडरीकवरलक्षणशोभमानं  
पद्माममत्र वदनं कृततत्त्वनामं वंदेय चारुगुनिमानसलोकमानंदं  
ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीपद्मप्रभतीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

सर्वोत्कभव्यजनजातकृतोर्ध्वभावं निःशेषकर्मगणनाश्वरेण्य-  
भावं  
सर्वावबोधपरिच्छिन्नसमस्तभावं सेवे सुपार्श्वमहिनाथमनंग-  
भावं ७

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीसुपार्श्वतीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

चंद्राकमिंदुविमलंजिनमर्चयामिकारुण्यवारिधितरंगितभासजंतं  
चंद्रविधूतनिखिलायमहाससेव्यंसाभ्यप्ररूपमहिमांचितचारु-  
रूपं ८

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीचंद्रप्रभतीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

श्रीपुष्पदंतजिनमानतपुष्पदंतं ध्वस्तांतरंगरिपुजातमनंगनष्टं ।  
निःशेषसंगरहितं सहितं गुणौघैः संपूजयामि यतिनाथमनंत-  
बोधं ९

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीपुष्पदंततीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

कर्पूरचंदनहिमांशुनिभप्रवाचं ससारदावशमनं गमनं विमुक्तेः ।  
कारुण्यवारिधिमरिंदममूढमुक्तिं श्रीशीतलेशमभिनामि नता-  
मरेज्ञं १०

ॐ ह्रीं जगदापह्निनाशनसमर्थाय श्रीशीतलतीर्थंकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

पुण्यानुबंधवरभूतिवृतं भदंतं यंच सतांपतिमनंतगुणं निरंतं ।  
श्रेयांसमत्रनिहताखिलकर्मबंधं संपूजयामि विहिताखिलजीव-  
बोधं ११

ॐ ह्रीं जगदापह्निनाशनसमर्थाय श्रीश्रेयांसतीर्थंकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

निःशेषबोधकलितं कलितं यतींद्रैः कल्याणसंततिविधानसम-  
र्थपुण्यं ।  
दांतं विवृद्धकरुणारसमर्चयामि श्रीवासुपूज्यमधिगम्य वरप्र-  
सत्तिं १२

ॐ ह्रीं जगदापह्निनाशनसमर्थाय श्रीवासुपूज्यतीर्थंकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

यः पश्यतिस्मनितरांशुवनंसमस्तं संपूजयामिविमलंतमहंशरर्ण्यं  
नानाविधं प्रचुरजंतुभृतुंगतीतं स्वाभाविकागतजनुस्सहितं सु-  
भक्त्या १३

ॐ ह्रीं जगदापह्निनाशनसमर्थाय श्रीविमलतीर्थंकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

अंतातिगं विमलकेवलबोधरूपस्संजातचारुपदमीशमनंतसंज्ञं ।  
संपूजयामि च नमामि तथा स्मरामि देवेन्द्रनागपतिसे-  
वितपादपद्मं १४

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीजनंततीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

धर्मं जिनेन्द्रमभिनीमि नतामरेन्द्रं भव्याब्जखंडहरिदश्वमनेकमेकं  
धर्मोपदेशविधिपुष्टसमस्तलोकं सर्वावबोधनयुतं जितमोहतंद्रं १५

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीधर्मतीर्थकरपरमदेवाय जलादि० ।  
शांतिं जिनं स्वपरशांतिविधानदक्षं संक्षिप्तमन्मथमनोरथ-  
मेकलक्ष्यं ।

घातिक्षयस्फुरदनल्पविवोधरूपं संपूजयामि निजकांति-  
जितार्यमाणं ।

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीशांति तीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

संभावयामि जिनदेवमनंतवीर्यं प्रोद्भूतनिर्मलविशालसुकीर्ति-  
मूर्ति ।

कुंश्वादिजीवसदयं सदयं महंतं कुंथुं गुणौघममरेशनुतं  
भदंतं ॥१७॥

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीकुंथुतीर्थकरपरमदेवाय जलादि० ।

षट्खंडभूमिजयलब्धवरिष्टकीर्तिं संसारभोगगतराग-  
निरस्तमूर्तिं ।

संपूजयेयमरनाथमनल्पबोधं सद्भव्यचारकृपेनायन-  
संनिभं तं ॥१८॥

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीसंनिभतीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

श्रीमल्लिनाथमसितं वरमर्चयामि पादद्वयानतनरेन्द्रसुरेन्द्र जातं ।  
क्रोधादिभोहगतवैरिगणप्ररुष्टसाम्यप्ररूढमनसं सुगिरं

निराश ॥ १९ ॥

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीमल्लितीर्थकरपरमदेवायजलादि० ।  
संमानयामि मुनिसुव्रतनाथमेकं संसारघातनसमर्थबलप्रशक्तं ।  
नानामुनींद्रगणसंस्तुतपादयुग्मं संप्राप्तचारुनिखिलद्विमनंत-  
सौख्य २०

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीमुनिसुव्रततीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

वंदामहे नमिजिनं गतरागदोषं पादाग्रघृष्टनिजमालसुरासुरौघं  
बाह्यांतरंगतपसा श्रितकर्मदग्धं सत्सौख्यसागरनिमग्न-  
मनंतदृष्टिं २१

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीनमितीर्थकर परम देवाय जलादि० ।  
श्रीनेमिनाथमनिशं नितरां महामि शारायुधानुगतकृष्णनतांघ्रि  
युग्म ।

निःशेषराज्यगसितुंगगतान्तरंगंकंजाकशोभितमनंगविनष्टभावं  
२२

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीनेमितीर्थकर परम देवाय जला० ।  
क्रोधोद्धतासुरविशेषकृतोपसर्गैरक्षोभ्यमानसमहीसकृता  
पुरोधं ।

श्रीपार्श्वनाथमिह नष्टसमस्तपंकं संपूजयामि वरवांछित-  
लब्धयेहं २३

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थाय श्रीपार्श्वनाथतीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

सिद्धार्थभूपतिनिशांतविशिष्टभासि श्रीकुंडलाख्यपुरि जन्म  
ग्रहीतवान्यः ।  
संपूजयामि जिननाथमनारतं तं श्रीवर्धमानमिह  
वाञ्छितलब्धयेहं ॥२४॥

ॐ ही जगदापद्धिनाशनसमर्थाय श्रीवर्धमानतीर्थकरपरमदेवाय  
जलादि० ।

चतुर्विंशतितीर्थेशाःपूर्णार्ध प्रापितास्तरां ।

ज्ञातिं श्रियं च कल्याणं कुर्वतु जिनभाजिनां॥पूर्णार्धं ।

इति चतुर्विंशतितीर्थकर पूजा ( इस तरह चौबीस तीर्थकरोकी  
पूजा समाप्त हुई ) ।

अथ बीजाक्षर पूजा ( अब बीजाक्षरकी पूजा कहते हैं ) ।

हभमरघन्नसस्वाः पिंडवर्णादिसंयुता ।

अत्रावतरत तिष्ठत भवत संनिहितास्तथा ॥ १ ॥

आन्हानादिपुरस्सरप्रत्येकपूजाप्रतिज्ञानाय पद्मपत्रेषु पुष्पांजलि  
क्षिपेत् ( उस यंत्रपर आन्हाननादि कह कर पुष्पोंको क्षेपै ) ।

स्ववर्गोपगतं चाये हर्षिंडाक्षरसयुतं ।

साग्नि सविंदु सकलं षष्ठस्वरसमन्वितं ॥२॥

ॐ हीं शाकिनी ग्रह भूत वेताल पिशाचादिकोच्चाटनादिनाशन-  
समर्थाय अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ऌ ए ऐ ओ औ अं अ. संयु-  
ताय 'हमर्लव्यूँ' इति बीजवर्णाय जलादि निर्वपामीति स्वाहा ।

स्ववर्गोपगतं चाये भर्षिंडाक्षरसंयुतं ।

साग्नि सविंदु सकलं षष्ठस्वरसमन्वितं ॥३॥

ॐ हीं शा....क ख ग घ ङ संयुताय भमर्लव्यूँ इति बीजवर्णाय  
जलादि० ।

स्ववर्गोपगतं चाये मर्पिंडाक्षरसंयुतं ।

साग्नि सविंदु सकलं षष्ठस्वरसमन्वितं ॥४॥

ओं हीं शा....च छ ज झ ञ संयुताय ममलव्यूमिति इति बीज-  
वर्णाय जलादि० ।

स्ववर्गोपगतं चाये रर्पिंडाक्षरसंयुतं ।

साग्नि सविंदु सकलं षष्ठस्वरसमन्वितं ॥५॥

ओ हीं शा....ट ठ ड ढ ण संयुताय रमलव्यू इति बीजवर्णाय  
जलादि० ।

स्ववर्गोपगतं चाये झर्पिंडाक्षरसंयुतं ।

साग्नि सविंदु सकलं षष्ठस्वरसमन्वितं ॥६॥

ॐ हीं शा....त थ द ध न संयुताय घमलव्यू इति बीजवर्णाय०

स्ववर्गोपगतं चाये झर्पिंडाक्षरसंयुतं ।

साग्नि सविंदु सकलं षष्ठस्वरसमन्वितं ॥७॥

ॐ हीं शा....प फ ब भ म संयुताय झ म्ळव्यू इति बीज० ।

स्ववर्गोपगतं चाये सर्पिंडाक्षरसंयुतं ।

साग्नि सविंदु सकलं षष्ठस्वरसमन्वितं ॥ ८ ॥

ॐ हीं शा....य र ल व संयुताय स म्ळव्यू इति बीज० ।

स्ववर्गोपगतं चाये खर्पिंडाक्षरसंयुतं ।

साग्नि सविंदु सकलं षष्ठस्वरसमन्वितं ॥९॥

ॐ हीं शा....श ष स ह संयुताय ख म्ळव्यू इति बीज० ।

ह भ म र घ झ स खाः पिंडवर्णादिसंयुताः ।

पूर्णांघ्रं प्रापिताः संतु शांतये शर्मणेतरां ॥१०॥

ॐ हीं....पूर्णांघ्रं ।

इष्टप्रार्थना ( इच्छित वस्तुकी प्रार्थना )।

ह भ म र घ झ स खाः पिंडवर्णादिसंयुताः ।

जलाद्यैः पूजिताः संतु श्रियै हृद्यै समृद्ये ॥११॥

इत्यष्टबीजाक्षरार्चनं=इस प्रकार आठ बीजाक्षरोकी पूजा समाप्त हुई ।

अथ अर्हदाद्यर्चनं=आगे अर्हत वगैरः की पूजा ।

स्मरामि स्वगुणोपेतान् जिनान् सिद्धान् गुरुंस्त्रिधा ।

तत्त्वदृग्ज्ञानचर्यां च द्विभेदां मोक्षकारणं ॥१२॥

ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु तत्त्वदृष्टि ज्ञान चारित्राण्य-  
वतरावतर संबौषट् । अनेन पद्मपत्रेषु पुष्पांजलिं प्रयुज्यावाहयेत् । आब्हा-  
ननं । ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु तत्त्वदृष्टि ज्ञान चारि-  
त्राण्यत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अनेन पद्मपत्रेषु पुष्पांजलिं प्रयुज्य प्रतिष्ठा-  
पयेत् । स्थापनं । ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु तत्त्वदृष्टि  
ज्ञान चारित्राण्यत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् । अनेन पद्मपत्रेषु  
पुष्पांजलिं प्रयुज्य संनिधापयेत् । सन्निधापनं

अथ पूजा ( अब पूजा कहते हैं ) ।

अर्हत्सिद्धगुरुंस्तत्त्वदृग्ज्ञानचरणानि च ।

तत्पदप्राप्तये सार्धं चाये सद्द्रव्यभावतः ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं मोक्षमुखोपलंभबीजभूतेभ्योऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु  
तत्त्वदृष्टिज्ञानचारित्रेभ्यो जल निर्वपामीति स्वाहा । एवं गन्धादिष्वपि योज्यं ।

अथ प्रत्येक पूजा ( अब हर एककी पूजा कहते हैं ) ।

प्राग्द्राग्रत्नस्य दृष्टिं विसृजति धनदो भजे जिनशासनोक्तं  
षण्मासांस्त्रियुक्तान् सुरयुवति वरं येषु गर्भेषु ।

स्नात्वा मेरौ विरज्य प्रवरमिति जनान् केवलज्ञानराज्ये  
निर्वाणप्रांतवासो निखिलरिपुगणान् ये विजित्वा नुमस्तान्

ॐ ह्रीं जगदापदिनाशनसमर्थेभ्यो अर्हद्भ्यो जलादि निर्वपामीति स्वाहा ।  
 साकार तद्विरक्तं जगदजगदिह ऋतृदृष्टा ।  
 प्रभवं धौव्यनाशं यतुर्जदुरभिगतं तत्सतत्त्वं हि येषां  
 गौरागौरप्रणष्ट प्रचुरगुणमयं स्वच्छमत्यंतरम्यं ।  
 तान्सिद्धान् पूजयामि त्रिभुवनमहितान् ध्येयतामापु-  
 षोद्धाः ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं निष्ठितपरिपूर्णभव्यार्थेभ्यः सिद्धेभ्यो जलादि निर्वपामीति  
 स्वाहा ।

निःशेषश्रुतसंगमोद्भवरसान्स्रक्तिप्रयुक्तिस्तरां  
 कुर्वतो बहुमानसं गतमतिमाधूतमिध्यामतिम् ।  
 नेतुं नाशमनारतं वरगुणान् सूरीन् यजामस्तकान्  
 ये मिध्यामतवादिनां नयवतः प्रोत्साहकान्  
 भूरिशः ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं भेदाभेद रत्नत्रयपालनसमर्थेभ्यः सूरिभ्यो जलादि निर्वपामीति  
 स्वाहा ।

सद्विद्याभ्यासचित्ता यतिपतिमहिता जाततत्त्वा-  
 वबोधाः  
 पंचाचाराश्वरंतः स्वयममृतधियश्चारयंतो गताशाः ।  
 शिष्यान् ये प्रीणयंतो विनयमुपगतान् सद्विरा चारु  
 वृत्तान्  
 शास्त्रार्थं व्यंजयंत्या कृतनिखिलमुदा पाठकास्तान्  
 यजामः ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं सद्विद्यानुष्ठानाम्यासोद्यतेभ्यः पाठकेभ्यो जलं निर्वपामीति  
 स्वाहा ।

एकत्वस्थितिजातसत्सुखभरव्याधिस्फुटश्चेतना-  
 श्रय्यां सांव्यवहारिकां बहुविध ये धारयंतो परां ।  
 शुद्धश्चात्मगतिप्रवृद्धमहिमास्तान् पूजयामो भृशं  
 साधून् साधितमानसेंद्रियगणान् पीयूषसेविस्तुतान् ॥

ॐ ह्रीं परम सुख प्राप्ति वद्ध कक्षा परे पेक्षानियमेभ्यः सर्वे साधुभ्यो  
 जलं निर्व्वपामीति स्वाहा ।

तत्त्वार्थरुचिरूपां त संसारानंत्यनाशिनीं ।

व्रतादिकमूलभूतां तत्त्वदृष्टिं भजाम्यहं ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं संसारांतकरणसमर्थायै तत्त्वदृष्ट्यै जलादि निर्व्वपामीति  
 स्वाहा ।

तत्त्वार्थाधिगमाधीनं संशयादिकनाशनं ।

चारित्रमित्रताकारि सम्यग्ज्ञानं यजाम्यहं ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं सत्सुखप्राप्तिमूलभूताय सम्यग्ज्ञानाय जलादि निर्व्वपामीति  
 स्वाहा ।

सर्व्वसावधरहितं रूपं चारित्रमंजसां ।

यजामि चारु भक्त्याहं संसारक्षयकारकं ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं स्वर्गादिसंपत्तिनिदानभूताय सम्यक्चारित्राय जलादि निर्व्व-  
 पामीति स्वाहा ।

अर्हत्सिद्धगुरुर्दृष्टिर्ज्ञानचर्या सुपूजिता ।

पूर्णार्थं प्रापिता श्रेयः संतु क्षेमाय शर्मणे ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं.....पूर्णार्थं.

इत्यर्हदाद्यर्चनं ( इस प्रकार अर्हत वगैरःका पूजन )

अथ भावनेद्राद्यर्चनं ( अब भवनवासी वगैरःका पूजन )

भावनेशादिकाः शक्राः श्रुतावध्यादियोगिनः ।

आयातशब्दयोगेन युष्मानत्रोपविश्यतां ॥

अथ आह्वानादि पुरस्सरं प्रत्येकपूजाप्रतिज्ञानाय पद्मपत्रेषु पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

अथ पूजा—

भावनेद्रं यजामीह स्फुरंत निजसेवया ।

निजवाहनमारूढं भजंतं जिननायकं ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं भावनेद्रायेमं अर्घं, पादं गंधं पुष्पं दीपं घूपं चरुं वलिं स्वस्ति-  
कमक्षत्वयज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्यतामिति स्वाहा ।

व्यंतरेन्द्रं समर्चामि व्यंतरव्यूहसेवितं ।

नमंतं तीर्थनाथं तं विश्वविघ्नोपशान्तये ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं व्यंतरेद्राय ।

ज्योतिष्केद्रं स्फुरत्कांतिं जिनस्योपास्तितत्परं ।

वालिनां मानये तं च वाहनादिविभूतिगं ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं ज्योतिष्केन्द्राय ।

संभावयामि कल्पेशं सुधाधोनिवहानुगं ।

विभूत्या परया युक्तं जिनयज्ञोष्णतां गतं ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं कल्पेन्द्राय ।

श्रुतावधिमुनींश्चाये द्विधासंयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिं संयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रुतावधिम्यो नमः ।

विक्रियर्द्धिमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं देशावधिम्यो नमः ।

परमावधिमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥७॥

ॐ ह्रीं परमावधिभ्यो नमः ।

सर्वावधिमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥८॥

ॐ ह्रीं सर्वावधिभ्यो नमः ।

बुद्धयर्थिसन्मुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥९॥

ॐ ह्रीं बुद्धिकृद्भिःप्राप्तेभ्यो नमः ।

सर्वौषधार्द्धिसंप्राप्तान् द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥ १० ॥

ॐ ह्रीं सर्वौषधिप्राप्तेभ्यो नमः ।

अनंतबलार्द्धिसंप्राप्तान् द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥११॥

ॐ ह्रीं अनंतबलार्द्धिप्राप्तेभ्यः ।

तप्तार्द्धिगमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥१२॥

ॐ ह्रीं तप्तार्द्धिप्राप्तेभ्यः ।

रसार्द्धिगमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥१३॥

ॐ ह्रीं रसार्द्धिप्राप्तेभ्यः ।

विक्रियार्द्धिमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥ १४ ॥

परमावधिमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥७॥

ॐ ह्रीं परमावधिभ्यो नमः ।

सर्वावधिमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥८॥

ॐ ह्रीं सर्वावधिभ्यो नमः ।

बुद्धयर्थिसन्मुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥९॥

ॐ ह्रीं बुद्धिऋद्धिप्राप्तेभ्यो नमः ।

सर्वोपधर्दिसंप्राप्तान् द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥ १० ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपधिप्राप्तेभ्यो नमः ।

अनंतबलर्दिसंप्राप्तान् द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥११॥

ॐ ह्रीं अनंतबलर्दिसंप्राप्तेभ्यः ।

तप्तर्दिगमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥१२॥

ॐ ह्रीं तप्तर्दिसंप्राप्तेभ्यः ।

रसर्दिगमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥१३॥

ॐ ह्रीं रसर्दिसंप्राप्तेभ्यः ।

विक्रियर्दिमुनींश्चाये द्विधा संयमपालकान् ।

तादृग्विशुद्धिसंयुक्तान् ध्यानसंगतमानसान् ॥ १४ ॥

त्रैलोक्यनायकं धीरं, संसारार्णवतारकं ।

जिनं भजंतीं सद्भक्त्या हीं देवीं पूजयाम्यहं ॥ १ ॥

ॐ हीं ही देवि ।

अनन्तसुखसम्पन्नं भवातीतं निरंजनं ।

दधतीं हृदि तीर्थेशं चायेहं धृतिदेवतां ॥ २ ॥

ॐ हीं धृति देवि ।

अनंतदर्शनज्ञानंसुखवीर्यगुणाकरं ।

लक्ष्मीदेवी समर्चामि सेवमानां जिनं तरां ॥ ३ ॥

ॐ हीं लक्ष्मी देवि ।

सुरासुरनराधीशसेवितं जिनसत्तमं ।

सज्ज्ञानदायकं चाये गौरीं मनसि कुर्वतीं ॥ ४ ॥

ॐ हीं गौरी देवि ।

सत्कांतिविसरव्याप्तशरीराकारमंजसा ।

सेवते जिननाथं या पूजयामीह चंडिकां ॥ ५ ॥

ॐ हीं चंडिके देवि ।

कर्मशात्रवविध्वस्तं, सुंदराकारशोभितं ।

सरस्वती नमंती तां जिनेन्द्रं तुष्टिमानये ॥ ६ ॥

ॐ हीं सरस्वति देवि ।

निर्विकारनिराकारनिराकांक्षादिसंयुतं ।

स्वभावभावंनातीतां समर्चामि जिनं जयां ॥ ७ ॥

ॐ हीं जये देवि ।

तामं विकामहं चाये या जिनं सेवतेतरां ।

दिव्यध्वनिसमायुक्तं ज्ञानं व्याप्तजगत्रयं ॥ ८ ॥

ॐ हीं अंबिके देवि ।

निःशेषघात्यरातीनां नाशं कृत्वा जिनो हि सः ।  
तत्त्वसास्तिचयसेव्यो यस्यास्तां विजयां यजे ॥९॥

ॐ ह्रीं विजये देवि ।

जगत्संबोध्य यः प्राप्तो निर्वृतिं जिनराड् महान् ।  
तं सेवमानां क्लिन्नाख्यां प्रापयामि मुदंतरां ॥ १० ॥

ॐ ह्रीं क्लिने देवि ।

या तनोति नतिं नित्यं भक्तिं प्रव्यक्तमानसा ।  
जिनदेवेऽजितां तां हि वलिनोपकरोम्यहं ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं अजिते देवि ।

विमलं निर्मलं ज्ञानं चक्षुषं लोकपावनं ।  
जिनं चानुनयंतीं तां नित्याहां देवतां यजे ॥ १२ ॥

ॐ ह्रीं नित्ये देवि ।

अंतातीतं जगद्व्यापि ज्ञानं यस्य मदद्रवं ।  
संसेवते जिनं यातं देवीं तां मुदमानयेत् ॥ १३ ॥

ॐ ह्रीं मदद्रवे देवि ।

समं ददर्श लोकं यो स वहाकारमंडितं ।  
तं जिनं भजमानां तां कामांगां करवै सुखं ॥ १४ ॥

ॐ ह्रीं कामांगे देवि ।

कर्मचक्रं क्षयं नीत्वा यः प्राप परमं पदं ।  
स्मरंतीं तं जिनं भक्त्या कामवाणां मुदा नये ॥ १५ ॥

ॐ ह्रीं कामवाणे देवि ।

सानंदां देवतां चाये या तनोति मुदं जिने ।  
नित्यानंदभरव्याप्ते निखिलामरसेविते ॥ १६ ॥

ॐ ह्रीं सानंदे देवि ।

( ३७ )

पूजयामीह तां देवीं नंदिमालिनिकां जिने ।

भक्तिं करोति या नित्यं दृष्टा तु सपरिच्छदा ॥ १७ ॥

ॐ ह्रीं नंदिमालिनि दे वे ।

मायादिदोषनिमुक्तं व्याप्ताशेषजगन्नयं ।

सेवमानां जिनं मायां धिनोमि बलिना मुदा ॥ १८ ॥

ॐ ह्रीं माया देवि ।

मायाविर्नीं भजे देवीं जिननाथं भजत्यलं ।

मायाजरपददातारं शान्तरूपं कले यकां ॥ १९ ॥

ॐ ह्रीं मायाविनि देवि ।

रौद्रभावस्य हंतारं कर्तारं मोक्षकाक्षिणं ।

सुखस्य रौद्री भजती जिनं चाये मनोहरं ॥ २० ॥

ॐ ह्रीं रौद्री देवि ।

निष्फलं सकल भूतमभूतं जिनमुत्तमं ।

निजवित्तनयतीतां, कलादेवीं महाम्यहं ॥ २१ ॥

ॐ ह्रीं कले देवि ।

स्वच्छमस्वच्छमव्यक्तं व्यक्तं नित्यमनित्यकं ।

उपकुर्यामहं कालीं भर्जतीं जिननायकं ॥ २२ ॥

ॐ ह्रीं काली देवि ।

अक्षयिज्ञानपूरेण संभृतं सत्समझकां ।

कलिप्रियां सेवमानां समर्चामि जिनोत्तमं ॥ २३ ॥

ॐ ह्रीं कलिप्रिये देवि ।

इत्येता श्रयादिका देव्यो जिनसेवापरायणाः

अनुगृह्यंतु जैनांश्च पूर्णार्धं प्रापितान्नरान् ॥ २४ ॥

पूर्णार्धं ।

इष्टप्रार्थना ।

श्रयादिकाः सकला देव्यः शान्तिं तन्वन्तु पूजिताः ।

जलगंधाक्षतैःपुष्पैश्चरुदीपफलादिकैः ।

इति श्रयादिदेवतार्चनं ।

अतःपरं ऋषिमंडलस्तोत्रोक्तमहामंत्रेण यंत्रोपरि जलप्रक्षालित  
त्ववगानात्तदभावे जात्यादिपुष्पानां वा अष्टोत्तरशतं शुद्धैकाम्रस्थिरम-  
नसा जपेत् । ॐ ह्रीं ह्रीं हूं ह्रों हः ह्रैं ह्रैं हः । ततःपरं चतुर्विंशति  
तीर्थकराणामिमां जयमालां पठेत् । तद्यथा ।

पणविवि जिणदेवहं । सुरकयसेवहं णासिय जम्म जरा  
भरहं । सिवसुहकयरावहं । गयमयरायह णिय भ-  
त्तिण जुत्तिण थणमि ॥

जय आइणाह कम्मादि वाह । जय आजिय जिणेसर मोइदाह  
जय संभव गयभवरायडंभ जयअहिणंदणाजिणपरमवंभ ॥ १  
जय सुमइकुमइंगयराय देव, जय पउम्पह सुर विहिय सेव ।  
जय जय सुपास मणहर सुभास, जयचंद प्पह जिय चंदहास ॥  
जय पुप्फयंत जिय पुष्पयंत, जय सीयल णिरसिइपी ईकंत  
जयसेय देव कय भव्व सेव, जय बांसु पुज्ज सुरकियण  
सवे ॥ ३ ॥

जय विमल जिणेसर विमल णाम जय जिण अणंतगय परम  
ठाण ।

जय धम्म धम्मदेसणसमत्थ जय संति संति गय गच्छ  
सच्छ ॥ ४ ॥

जय कुंथु सामि गयकम्मपंक जय अर अर सामियसामियसंक ।

( ३९ )

जय महि सामि णिय सत्तभंग जय मुणिसुव्वय तव जिय  
अणंग ॥ ५ ॥

जय पास देव फणि विंब देव जय बडुमाण गुणगण  
गरिह ॥ ६ ॥

घत्ता—

इय थुणमि जिणेसर महि परमेसर णासियकम्म कलंक भरे ।  
सुर बहु संसिय भम मइ भंसिय उत्ता रिज्जइ अघु बरं ॥

अत्यादरेण अति संभ्रमेण त्रिःप्रद क्षिणया एतत् पठित्वा जलादि  
चित्तं स्वर्णादि भाजन स्थितं पूर्णार्धं अवतार्य प्रणमंति शक्रादय अपिब ।  
यदि पूजायां पूर्णतां गतायां सत्या कियती रात्रिस्तिष्ठति । तदा तीर्थ-  
कराणां स्तोत्रादिकथनेन तां पूर्णतामानीय प्रभाते स्तवनविधि कुर्यात् ।  
ततःपरं शांतिजिनं शशिनिर्मलवक्त्रीमत्यादि पठित्वा शांति विद-  
ध्यात् ततश्चाशीर्वादाः पठनीयास्तथा ।

निःशेषामरशेस्वरार्चित पद द्वंदो ह्यसन्नस्व त्रातप्रोद्धत  
काति संहति संहति हतिहत प्रव्यक्त भक्त्या  
सब लसद्वीर्वाणेशमहोत्तमांग मुकुट प्रस्फूर्त्तिम द्रवभा  
ऋद्धि वृधिमनारतं जिनवराः । कुर्वतु नः सर्वदा ।

अश्लेषकर्म्मरि बिनाश जात प्रस्पष्ट दृग्भ्रसिसुख  
स्वरूपा ।

क्षांतिधृति शर्म शिवं च सिद्धास्तन्वंतु वो वाञ्छितदान  
दक्षाः ।

ये चारयंति च चरंति मलव्यतीतं पंचागमाचरण  
मत्र विनेय वर्गान् ।

( ४० )

ते संतु चारु निर आनत देववर्गा सौरव्याय चारु  
मतयो गुरवस्त्रिधापि ॥

भावनेशादिकाः शक्रा दिव्या हि श्रयादिका वराः ।  
अन्येपि च सुपर्वाणः विघ्नघाताय संतु वः ॥  
यावच्चंद्रो क्षमात्र प्रचपति भुवने गागमणः सुमेरु  
यावत्स्वर्गः समुद्राः सुर विसर भ्यताः सद्विमानामा कुलार्गा ।  
यावन्नक्षत्र मार्गो जिनपति भवनान्यस्तकर्मारि चक्राः  
सिद्धास्व पुत्र पौत्रः सुखमनुभवं वैः संजुतो नंद जीव ॥

इत्येतानाशीर्वादान् पठित्वा यष्टस्तद्धार्थया वस्त्रे जिनांधि प्रसून  
प्रचयं प्रक्षिपेत् । ॐ समाहूता देवाः सर्वे स्वस्थानं गच्छतो गच्छतः ।  
इति विसर्जनमंत्रोच्चारणेन यत्रोपरि पुष्पाजलिं वितीर्य देवान्  
विसर्जयेत् ।

चतुर्विंशतितीर्थेशास्तथाहंदादयोपि च ।

अष्टावपि स्फुरन्वन्नपरमानंदकारिणः ॥

इत्यनेन चतुर्विंशतितीर्थेशानष्टावहंदादोश्चाध्यात्ममध्यासयेत् ।

इति देवताविसर्जनं ॥

कर्मारतिचतुष्टयाक्षयमगात्संजातवान् बोधराट्  
वाणीविश्वहितंकरा समभवद्विश्वार्थ संदर्शनी ।  
येषां देवमहीशसंस्तुतघटा भव्याब्जपूष्णांसतां  
लक्ष्मीं शांतिमनारतं जिनवरास्तन्वंतु ते भावुकं ॥

अनेन यंत्राग्रे शांतिधारा प्रकल्प्यैवजलिं विदध्यात् ॐ अहंद्भवे  
नमः । सिद्धेभ्यो नमः सूरिभ्यो नमः पाठकेभ्यो नमः, सर्व साधुभ्यो  
नमः, अतीताना गत वर्त्तमान त्रिकाल गोचरानंतद्रव्य मनःपर्यायात्मक

वस्तुपरिच्छेदक सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याद्यनेक गुण गणधारक परमेष्ठिन्यो नमः पुण्याहं, प्रीयंतां, ऋषमादि वर्धमान पर्यंत तीर्थंकरपरमदेवास्तत्समयपालिन्यः प्रतिचक्रेश्वरी प्रभृति चतुर्विंशति यक्ष्यः आदित्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति शुक्र, शनि, राहु, केतु, प्रभृत्यष्टाशीति प्रहाः । वासुकि संषाल कर्कोटक पद्म कुलिकानत तक्षक महापद्म । जय विजय नाग यक्ष गंधर्व ब्रह्मराक्षस भूत व्यंतरप्रभृति भूताश्च सर्वेभ्येते जिनशासन वत्सलाः ।

ऋष्यजिका श्रावक श्राविका यष्ट याजक राज मंत्रि पुरोहित सामंता रक्षक प्रभृति समस्त लोकसमूहस्य शांति वृद्धि पुष्टि क्षेम कल्याण स्वायुरारोग्यप्रदा भवंतु सर्वसौख्यप्रदाश्च संतु । देशे राष्ट्रे पुरेषु च सर्वदैवचौरामारीति दुर्भिक्षावग्रह विघ्नौघ दुष्टग्रह भूत शांकिनी प्रभृत्यशेषान्यनिष्ठानि प्रलय प्रयांतु । राजा विजयी भवतु । प्रजा सौख्यं भवतु । राजा प्रभृति समस्त लोकाः सतत जिनधर्म वत्सलाः पूजा दान व्रत शील महा महोत्सव प्रभृतिषूद्यता भवंतु चिरकाल नंदतु । यत्र स्थिता भव्यप्राणिनः संसारसागरं लीलयैवोत्तीर्यानुपमसिद्धिसौख्यमनतकालमनुभवन्त्विति पठित्वा सर्व्वतः पुष्पाक्षतादिभिर्वालं दद्यात् ।

इति बलि विधानं ।

ततो स्वागतसंघं च शक्रं निजपरिच्छदा

गुर्छादिकं तथान्यांश्च तर्पयेच्च यथायथं ।

करोति कारयत्येव कुर्वतमनुमोदते ।

इमां पूजां हि यो धन्यो गुणनंदी स जायते ॥ २ ॥

भावार्थ—यंत्रकी पूजा के बाद मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका तथा अपने साधर्मा भाइयोंको आहार दान समदान वगैरःसे यथायोग्य

सत्कार करै । आचार्य कहते हैं कि जो इस ऋषिमंडल यंत्रकी पूजाको शुद्धमन वचन कायसे करेगा, करावेगा तथा करते हुए की मनसे भावना व प्रशंसा करेगा ' अर्थात् तुमने बहुतही उत्तम कार्य किया मुझको भी कोई शुभ अवसर मिलेगा तो कहूंगा इत्यादि, वह धन्य पुरुष गुणोमे ही आनंद करनेवाला अर्थात् निराकुल सुखको भोगने वाला अवश्य हो जायगा ॥ १ । २ ॥

ग्रंथकर्ताकी प्रशस्ति ।

गुणानंदे मुनींद्रेण रचिता भक्तिभावततः ।

शतत्रयाधिकाशीतिश्लोकानां ग्रंथसंख्यया ॥ १ ॥

अर्थ—यह ऋषिमंडल यंत्रकी पूजा श्री गुणानंदि मुनीश्वरने अत्यंत भक्तिभावसे रची है । इसकी मूल संख्याका प्रमाण एकसौ तिरासी श्लोकके अनुमान है ।

रिक्तपात्रगुणवच्छी ज्ञानभूर्पाहिभा—

गर्हच्छासनभक्तिनिर्मलरुचिः पद्माजनुर्वा शुचिः ।

वीरातः करणश्च चारुचरणैर्बुद्धिप्रवीणोरचत्

पूजां श्रीऋषिमंडलस्य महता नंदी मुनिः सौख्यदां

॥ १ ॥

